

## प्रेस विज्ञप्ति

जामिया की एकेडमिक काउंसिल ने ऑनलाइन मैराथन बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एकेडमिक काउंसिल (एसी) की एक महत्वपूर्ण बैठक 'गूगल मीट' के ज़रिए 06 मई को हुई। विश्वविद्यालय के इतिहास में 4 घंटे लंबी चली यह पहली ऑनलाइन मोड के माध्यम वाली बैठक थी। इसमें कुलपति प्रो नजमा अख्तर, रजिस्ट्रार श्री ए.पी. सिद्दीकी (आईपीएस), सभी डीन और परिषद के अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया।

कोविड-19 की वजह से विश्वविद्यालय शिक्षा में आए व्यवधान और बड़े बदलावों से जुड़े कई शैक्षणिक मुद्दों पर बैठक में विचार विमर्श हुआ।

काउंसिल की बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों को समग्रता से अपनाने का निर्णय लिया गया।

इस बैठक में लिए गए कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं;

ऑनलाइन क्लासें अब 31 मई 2020 तक जारी रहेंगी। पहले इसे 30 अप्रैल 2020 तक इन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।

असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 5 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की वेबसाइट पर 15 जून, 2020 तक असाइनमेंट मार्क्स / इंटरनल एसेसमेंट मार्क्स अपलोड करें।

सिर्फ फाइनल सेमेस्टर / इअर के छात्रों की परीक्षाएं 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच विश्वविद्यालय में ऑफ़लाइन आयोजित की जाएगी।

छात्रों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करें।

15 जून से 30 जून, 2020 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश होंगे।

1 अगस्त, 2020 से विश्वविद्यालय नियमित छात्रों के लिए फिर से खुलेगा और कक्षाएं शुरू होंगी।

सत्र 2020-21 के लिए नए प्रवेश के लिए अनुसूची:

सत्र 2020-21 के लिए आलनाइन आवेदन करने की तारीख 31 मई 2020 तक बढ़ा दी गई है।

प्रवेश परीक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होकर अगस्त 2020 तक चलेगी।

1 सितंबर, 2020 से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा।

कोरोना महामारी से प्रभावित मौजूदा सेमेस्टर के लिए परीक्षा, प्रवेश और मूल्यांकन नियमों में बदलाव करते हुए, बैठक में मॉस्को बेस्ड आरयूआर वलूड रैंकिंग में विश्वविद्यालय की रैंकिंग में हालिया सुधार को भी ध्यान में रखा गया।

## अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया समन्वयक